

मुख्य नियंत्रण सुविधा Master Control Facility
हासन Hassan - 573201

सूचना का अधिकार (स्व – प्रेरणा प्रकटीकरण)
Right to Information (Suo – Motu Disclosure)

एम.सी.एफ. की इंटरनेट/ आई.टी नीति, दिनांक 05.08.2020
Internet/IT Policy at MCF dated 05.08.2020

सुरक्षित इंटरनेट अभिगम हेतु थिन क्लाइंट का नियोजन

Deployment of thin clients for secured Internet access:

- सुरक्षित आई.डी. आधारित इंटरनेट अभिगम।
Secured ID based internet access.
- सभी प्रकार्यात्मक पदनामित पदाधिकारियों हेतु व्यावहारिक इंटरनेट अभिगम सुविधा।
Customary Internet access facility for all the functionally designated Officials.
- प्रत्येक मामले के आधार पर निदेशक के अनुमोदन से अन्य पदाधिकारियों हेतु इंटरनेट अभिगम सुविधा।
Internet access facility for other officials with the approval of Director on case to case basis.

सामान्य इंटरनेट ब्राउजिंग – सर्वोत्तम प्रथा General Internet Browsing – Best Practices:

ब्राउजर सुरक्षा Browser Security:

- हमेशा अद्यतित एंटी वायरस, ओपरेटिंग सिस्टम तथा अनुप्रयोग व ब्राउजर का प्रयोग करें।
Always use updated anti-virus, Operating System and applications and browser.
- सैंडबॉक्सिंग क्षमता सहित वेब ब्राउजर (जैसे-गुगल क्रोम, सफारी इत्यादि) का प्रयोग करें
सैंडबॉक्सिंग में सामान्यतः कार्यान्वयन के दौरान मैलवेयर होता है।
Use a web browser with sandboxing capability (like Google chrome, safari, etc.). Sandboxing usually contains malware during execution.
- प्रत्येक लॉग-आउट सेशन के पश्चात ब्राउजर से हिस्ट्री साफ करने की आदत डालें।
Make a habit of clearing history from the browser after each logout sessions.

- नियमित तौर पर विन्डो 'टेम्प' एवं "क्षणिक इंटरनेट फाइल" डिलिट करें।
Delete Windows "Temp" and "Temporary Internet files" regularly.

डाउनलोडिंग Downloading:

- केवल विश्वासनीय स्रोतों या वेबसाइटों से ही सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें। अनाधिकृत साइटों पर दिखने वाले डाउनलोड लिंको पर क्लिक न करें।
Download software from trusted source or trust worthy websites only. Do not click links to download anything you see on unauthorized sites.
- आपके द्वारा क्लिक / डाउनलोड की जाने वाली वस्तुओं के लिए सचेत रहें।
Be conscious of what you are clicking on/downloading.
- कुछ पोप-अप में क्लोज़ बटन दिखते हैं परन्तु आपके क्लिक करने ही ये स्पाईवेयर संस्थापित करने का प्रयास करते हैं।
Some pop-ups have what appears to be a close button, but will actually try to install spyware when you click on it.
- याद रहे की इंटरनेट पर वस्तुएं मुश्किल से ही निःशुल्क होती हैं। "निःशुल्क" स्क्रीनसेवर इत्यादि में मैलवेयर होता है।
Remember that things on the Internet are rarely free. "Free" Screensavers, etc. generally contain Malware.
- डाउनलोडयोग्य फ्री सॉफ्टवेयर से सावधान रहें – ऐसे कई साइटें हैं जिनमें प्रयोक्ताओं को अपील करने वाली अनुकूलित टूलबार या अन्य विशेषताएं होती हैं, जिनमें संभाव्य रूप से बैकडोर होते हैं।
Be wary of free downloadable software – There are many sites that offer customized toolbars or other features that appeal to users, which are likely to have backdoors.
- वेबसाइटों या ई-मेल से प्राप्त लिंको से डाउनलोड फाइलों को स्कैन कीजिए।
Scan all the files after you download whether from websites or links received from e-mails.
- किसी भी लिंक या फाइल पर क्लिक न करें और न ही स्वतः डाउनलोड होने दें, फाइल डाउनलोड करें व इसे अपेक्षित स्थान पर सेव कर अनुप्रयोग को रन करें।
Do not click the link or file and let it start download automatically, download the file and save where you want to save and then run on the application.

- कभी भी फ्री एंटी-वायरस या एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर वाले लिंको पर क्लिक न करें। हमेशा विश्वसनीय साइटों से ही डाउनलोड करें। डाउनलोड किए जाने वाली वेबसाइट के बारे में निश्चित न होने की स्थिति में अपने पसंदीदा सर्च इंजन में उस साइट को एंटर करके देखें कि क्या इसके बारे में अनवांछित टेक्नॉलॉजी पोस्ट या रिपोर्ट की गई है।

Never download from the links that offer free antivirus or anti spyware software, always download from trusted sites, if you are not sure about the site you are downloading, enter the site into favourite search engine to see anyone posted or reported that it contains unwanted technologies.

- फाइल साझा करने वाले सॉफ्टवेयर से अत्यधिक सावधान रहें। फाइल शेयरिंग से आपके कंप्यूटर में दोषपूर्ण फाइलों व एटैकर्स का जोखिम बढ़ जाता है। यदि आपके द्वारा कॉपीराइट फाइल साझा की जाती है तो आपको गंभीर कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

Be extremely careful with file sharing software. File sharing opens your computer to the risk of malicious files and attackers. Also, if you share copyrighted files, you risk serious legal consequences.

वैयक्तिक सुरक्षा Personal Security:

- इंटरनेट पर वैयक्तिक जानकारी संचित करने के प्रति सजग रहें।
Be wary of storing personal information on Internet.
- संरक्षित की जाने वाली किसी भी जानकारी को इंटरनेट से कनेक्ट होने वाली किसी भी किसी भी डिवाइस से कनेक्ट न करें।
Do not store any information you want to protect on any device that connects to the Internet.
- भारत के बाहर आधारित सभी क्लाउड सेवाओं (ड्रॉप बॉक्स, आईक्लाउड, एवरनोट इत्यादि) से बचें।
Avoid all cloud services (Dropbox, iCloud, Evernote, etc.) that are based outside India.
- स्थान जानकारी चाहने वाली सेवाओं के प्रयोग से बचे।
Avoid using services that require location information.
- याद रखें की सर्च इंजन आपकी सर्च हिस्ट्री का पता लगा सकते हैं तथा आपकी सर्च हिस्ट्री पर आधारित परिणामों के आधार पर आपके व्यक्तिगत परिणाम ऑफर करते हैं।
Remember search engines track your search history and build profiles on you to serve you personalized results based on your search history.

- कभी भी घर तथा कार्यालय संबंधी विषयवस्तु का आदान-प्रदान न करें
Never exchange home and office work related contents.
- जी.पी.एस. समन्वयकों सहित फोटो पोस्टिंग से बचें।
Avoid posting of photos with GPS coordinates.
- जिनके साथ आप पत्राचार करते हैं, उनके संबंध में सत्यापन कर लें। इंटरनेट पर लोगों के लिए नकली पहचान बनाना सरल होता है।
Verify those you correspond with. It is easy for people to fake identities over the Internet.

अन्य उपाय Other measures:

- दस्तावेज(.doc, docx .xls, .xlsx and .def) फाइल एक्स्टेंशन वाले असाधारण फोल्डरों की लगातार जांच करते रहें। (सर्च ऑप्शन में, एडवांस् सर्च विकल्प का चुनाव करें, “सर्च सिस्टम फोल्डर” “सर्च हिडन फाइल एवं फोल्डर” तथा सर्च सब फोल्डर की जांच को सुनिश्चित करें।
Frequently check unusual folder locations for document (.doc, docx .xls, .xlsx and .def) file extensions (in search options, select advanced search options, make sure you checked “Search System folder”, “Search hidden files and folders” and “search subfolders”)
- सार्वजनिक वाई –फाई के इंटरनेट अभिगम से बचें।
Avoid Internet access through public Wi-Fi.